



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2009, शनिवार/कार्तिक 24—कार्तिक 30, 1931
No. 20] NEW DELHI, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2009, SATURDAY/KARTIKA 24—KARTIKA 30, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2009

आ.अ. 42.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा से हुए लोकसभा के साधारण निर्वाचन के लिये जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शाए गए अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा निरहित घोषित करता है;

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या एवम् नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	लोक सभा का साधारण निर्वाचन-2009	8-भिवानी, महेन्द्रगढ़	राजेश कुमार, सुपुत्र बृजलाल, मकान सं. 277 वार्ड सं. 22, ओल्ड सराय रविदास मार्ग, नारनौल, हरियाणा	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दखिल करने में असफल रहे।
2.	यथा	यथा	राजेश कुमार, सुपुत्र हवा सिंह, ग्राम एवं पो. आ. राजावास, तहसील एवं जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा	यथा
3.	यथा	यथा	विनोद कुमार, ग्राम गूहली, पो. आ. हमीदपुर, तहसील एवं जिला नारनौल, हरियाणा	यथा
4.	यथा	यथा	नीलकंवल @ नीलम, अग्रवाल, डब्ल्यू 6/5 डी.एल.एफ., सिटी फेस-3, गुड़गाँव, हरियाणा।	यथा

[सं. 76/हरियाणा-लो. सभा/2009 (1)]

आदेश से,

तपस कुमार, प्रधान सचिव-

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2009

O.N. 42.—Whereas, the Election Commission is satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Lok Sabha held from Haryana in May, 2009 as specified in column (2) and held from constituency correspondingly specified in column (3) against their names have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table enclosed to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Lok Sabha, 2009	8-Bhawani-Mahendergarh to the Lok Sabha, 2009	Rajesh Kumar S/o Brij Lal, H. No. 277, Ward No. 22, Old Sarai, Ravidas Marg, Narnaul	Failure to lodge account of election expenses.
2.	-do-	-do-	Rajesh Kumar S/o Hawa Singh, Village & P.O. Rajawas, Tehsil & District Mahendergarh	-do
3.	-do-	-do-	Vinod Kumar Village Goohli, P.O. Hamidpur, Tehsil Narnaul, Distt, Mahendergarh	-do
4.	-do-	-do-	Neelkanwal @ Neelam Aggarwal, W 6/5, D.L.F. City Face 3, Gurgaon	-do

[No. 76/HN-HP/2009 (1)]

By Order,

TAPAS KUMAR, Principal Secy.